

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 312]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 नवम्बर 2024—कार्तिक 17, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2024

फा. क्र. 3103-2024-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, प्रदेश के श्योपुर एवं सीहोर जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेषित संलग्न सूची के अंतर्गत अधिकारियों / कर्मचारियों को विधान सभा उप निर्वाचन 2024 का कार्य सम्पन्न कराए जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां अधिसूचना जारी होने के दिनांक से मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिए प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल सिंह शिवाच, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश

क्र.-वि.स.उप.निर्वा-2024-2535

श्योपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2024

विधानसभा उप निर्वाचन 2024

दिनांक 21.10.2024 से विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव
जिले का नाम:- जिला श्योपुर (संशोधित प्रस्ताव)

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6
1	श्री रिशु सुमन	सहा.संचालक	महिला बाल विकास	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
2	श्री जी.के.पचौरिया	सहा.संचालक	कृषि विभाग	वर्ग 2	---
3	डॉ. मनोज शाक्य	सहा.संचालक	पशु चिकित्सालय	वर्ग 2	---
4	डॉ.पी.एस.गोयल	सहा.संचालक	शिक्षा विभाग	वर्ग 2	---
5	श्री पुष्पेन्द्र दांतरे	उपयंत्री	आरईएस	वर्ग 2	---
6	श्री राघवेन्द्र सिंह सिकरवार	प्राचार्य	डाईट	वर्ग 2	---
7	श्री मनीष भास्कर	उपयंत्री	पीएचई	वर्ग 2	---
8	डॉ. रामनिवास शाक्य	पशु चिकित्सक	पशु विभाग	वर्ग 2	---
9	श्री महेश चन्द दंडोलिया	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग	वर्ग 2	---
10	श्री आर.एन.तिवारी	सहा. यंत्री	जल संसाधन	वर्ग 2	---
11	श्री सुनील पुआरे	एजीएम	एमपीआरडीसी	वर्ग 2	---
12	डॉ.सचिन उपाध्याय	पशु चिकित्सक उप संचालक	पशुपालन विभाग	वर्ग 2	---
13	श्री महेन्द्र कुमार अग्रैया	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग	वर्ग 2	---
14	डॉ.योगेश कुमार गुप्ता	पशु चिकित्सक	पशु विभाग	वर्ग 2	---
15	श्री सुभाष दोहरे	उपसंचालक	पशुपालन विभाग	वर्ग 2	---
16	श्री अनिल कुमार पटेल	उपयंत्री	पीआईयू	वर्ग 2	---
17	श्री विष्णु भगवान अग्रवाल	एसडीओ	पीडब्ल्यूडी	वर्ग 2	---
18	श्री राहुल कनेरिया	एसडीओ	आरईएस	वर्ग 2	---
19	श्री गौरव दुवे	सीडीपीओ	महिला बाल विकास	वर्ग 2	---
20	श्री पान सिंह करौरिया	सहायक संचालक	कृषि विभाग	वर्ग 2	---
21	श्री अरविंद कुमार वर्मा	सहायक संचालक	कृषि विभाग	वर्ग 2	---
22	श्री दनेश कुमार चंदेलिया	मत्स्य अधिकारी	मत्स्य विभाग	वर्ग 3	---
23	डॉ. छत्रपाल नरवरिया	उपसंचालक	पशु पालन विभाग	वर्ग 2	---
24	श्री जितेन्द्र राठौर	उपयंत्री	जलसंसाधन बीरपुर	वर्ग 2	---
25	श्री एम.के.शर्मा	एस.डी.ओ.	जलसंसाधन बीरपुर	वर्ग 2	---
26	श्री अजय प्रताप सिंह नरवरिया	सहा. परि. यंत्री	लो.नि.वि.पी.ई.यू.	वर्ग 2	---
27	श्री आर.पी. सैंगर	एस.डी.ओ.पी.	पीएचई	वर्ग 2	---
28	श्री यतेश्वर छारी	उपयंत्री	पीएचई विजयपुर	वर्ग 2	---
29	डॉ.जी.एस.गहलोत	मुख्य पशु चिकित्सा अधि.	पशुपालन विभाग	वर्ग 2	---
30	श्री एम.एस.कुशवाह	सहा.प्रबंधक	प्रधानमंत्री सड़क	वर्ग 2	---
31	डॉ. जितेन्द्र कुमार	पशु चिकित्सक	पशु विभाग	वर्ग 2	---
32	श्री के.पी.अर्गल	बीआरसीसी	जनपद शिक्षा केन्द्र विजयपुर	वर्ग 2	---
33	श्री देवदत्त शर्मा	एस.डी.ओ.	पीडब्ल्यूडी विजयपुर	वर्ग 2	---
34	श्री संजय कुशवाह	उपयंत्री	जनपद पंचायत	वर्ग 2	---
35	श्री विष्णु राठौर	एसडीओ	कृषि विभाग	वर्ग 2	---

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/सर्वग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6
36	श्री एम.एस.इंदोलिया	आर.ए.ई.ओ.	कृषि विभाग	वर्ग 3	
37	श्री आर.एन.शर्मा	ईई	डब्ल्यूआरडी	वर्ग 2	--"
38	डॉ. नरेन्द्र मदुरिया	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सालय	वर्ग 2	--"
39	डॉ. कृष्ण कुमार शर्मा	पशु चिकि.अधि.	पशु चिकित्सालय	वर्ग 2	--"
40	श्री पंकज राजपूत	एस.डी.ओ.	आरईएस	वर्ग 2	--"
41	श्री रोहित सिंह राजावत	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी	वर्ग 2	--"
42	श्री बी.पी.झसिया	मत्स्य अधि.	मत्स्य विभाग	वर्ग 2	--"
43	श्री सुभम अग्रवाल	ईई	पीएचई	वर्ग 2	--"
44	श्री अखिलेश पिप्पल	उप संचालक	पशुपालन विभाग	वर्ग 2	--"
45	श्री रामरेश मीणा	ग्रामीण उद्यानकी विकास अधिकारी	उद्यानकी विभाग	वर्ग 3	--"
46	श्री नवल किशोर जाटव	सहा.प्रबंधक	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	वर्ग 2	--"
47	श्री मुकेश कुमार दनेलिया	वरिष्ठ कृषि विकास अधि.	कृषि विभाग	वर्ग 3	--"
48	श्री अंकित सक्सेना	एसडीओ	आरईएस विजयपुर	वर्ग 2	--"
49	श्री मुकेश कुमार मीणा	ग्रा.उ.वि.अ.	उद्यानीक विभाग	वर्ग-2	--"
50	श्री श्री नवल सिंह चौवे	आ.ए.ई.ओ.	कृषि श्योपुर	वर्ग-2	--"
51	श्री जयसिंह जमोरिया	आ.ए.ई.ओ.	कृषि श्योपुर	वर्ग-3	--"
52	श्री गंगादीन माहौर	आ.ए.ई.ओ.	कृषि श्योपुर	वर्ग-3	--"
53	श्री हरि सिंह शाक्य	आ.ए.ई.ओ.	कृषि श्योपुर	वर्ग-2	--"
54	श्री लालाराम जाटव	सहायक प्रबंधक	निगम आपूर्ति विभाग	वर्ग-3	--"
55	श्री ओमप्रकाश नागर	उपयंत्री	पीएचई	वर्ग-2	--"
56	श्री महेश सिंह सिसौदिया	पशु चिकित्सक	पशुपालन विभाग	वर्ग-2	--"
57	श्री आदित्य शर्मा	उपयंत्री	जनपद पंचायत	वर्ग-2	--"
58	श्री टीनु त्यागी	उपयंत्री	आरईएस	वर्ग-2	--"
59	श्री सुनील पिप्पल	एपीओ	जनपद पंचायत	वर्ग-2	--"
60	श्री पी.के.श्रीवास्तव	प्राचार्य	जनजातिय विभाग	वर्ग-2	--"
61	श्री अजय रावत	बी.आर.सी.	जनजातिय विभाग	वर्ग-2	--"
62	श्री भीमविक पटेल	खनिज अधिकारी	खनिज विभाग	वर्ग-2	--"
63	श्री वीरेंद्र राठौर	उपयंत्री	पी.एच.ई.	वर्ग-2	--"
64	श्री शैलेंद्र पचौरी	उपयंत्री	लो.नि.विभाग	वर्ग-2	--"
65	श्री अनिल कु.उपाध्याय	सहा.परि.अधि.	पी.आई.यू.	वर्ग-2	--"
66	श्री अनिल कु.मल्लि	सहा.परि.अधि.	पी.आई.यू.	वर्ग-2	--"
67	श्री सतीश कैराना	एसडीओ	आरईएस श्योपुर	वर्ग-2	--"
68	श्री शिवदयाल गुप्ता	सचिव	कृषि उपज मण्डी	वर्ग-2	--"
69	श्री वीरेंद्र दहरिया	ए.ई.	डब्ल्यूआरडी श्योपुर	वर्ग-2	--"
70	श्री गोरी शंकर जाटव	ए.ई.	डब्ल्यूआरडी श्योपुर	वर्ग-2	--"
71	श्री सुनील पिप्पल	एपीओ	जनपद पंचा.विजयपुर	वर्ग-3	--"
72	श्री राकेश गौतम	उ.मा.शि.	मॉडल स्कूल विजयपुर	वर्ग-2	--"
73	श्री राकेश गुप्ता	प्राचार्य	एकलव्य आ.वि.कराहल	वर्ग-2	--"
74	श्री एम.पी. मोर्य	प्राचार्य	कन्या हाई स्कूल कराहल	वर्ग-2	--"
75	श्री दृष्यंत वर्मा	सहा.उप.निरीक्षक	कृषि उपज मंडी	वर्ग-2	--"
76	श्री सुभाष सिंह	उपयंत्री	आरईएस	वर्ग-2	--"

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6
77	श्री सतोष थाकड	उपयंत्री	जलसंसाधन	वर्ग-2	--"
78	श्री सनी वघेल	उपयंत्री	आरईएस	वर्ग-2	--"
79	श्री अजय राजौरिया	सहा.वंत्री	आरईएस	वर्ग-2	--"
80	श्री प्रेम नारायण	उपयंत्री	आरईएस	वर्ग-2	--"
81	श्री हरतूम थाकड	ग्रा.कृषि वि.अधि.	कृषि विभाग	वर्ग-2	--"
82	श्री सोभाराम चौहान	ग्रा.कृषि वि.अधि.	कृषि विभाग	वर्ग-2	--"
83	श्री देवेन्द्र मित्तल	उपयंत्री	पीएचई	वर्ग-2	--"
84	श्री दिनेश बारिया	ग्रा.कृषि वि.अधि.	कृषि विभाग	वर्ग-2	--"
85	श्री धरमा सेमले	ग्रा.कृषि वि.अधि.	कृषि विभाग	वर्ग-2	--"
86	श्री प्रशंत मौड	सहा.उप निरीक्षक	कृषि उपज मंडी	वर्ग-2	--"
87	श्री रामअवतार गुप्ता	प्र.उ.वि.	उद्यानक्री विभाग	वर्ग-2	--"
88	श्री समेतलाल वैगा	कनिष्ठ सहा.	निगम आपूर्ति विभाग	वर्ग-2	--"
89	श्री राजेश कुमार शाक्य	ग्रा.कृषि वि.अधि.	कृषि विभाग	वर्ग-2	--"
90	श्री विवेक निगम	सहा.उप निरीक्षक	कृषि उपज मंडी	वर्ग-2	--"
91	श्री अजीत गिरी	उपयंत्री	जनपद पंचायत कराहल	वर्ग-2	--"
92	श्री सागर कानवा	ग्रा.कृषि वि.अधि.	कृषि विभाग	वर्ग-2	--"
93	श्री सचिन बिरला	ग्रा.कृषि वि.अधि.	कृषि विभाग	वर्ग-2	--"
94	श्री पुरुषोत्तम मीणा	ग्रा.कृषि वि.अधि.	कृषि विभाग	वर्ग-2	--"
95	श्री कैलाश सिंह जाटव	ग्रा.कृषि वि.अधि.	कृषि विभाग	वर्ग-2	--"
96	श्री विष्णुदत्त दुवे	उपयंत्री	जनपद शिक्षा केन्द्र कराहल	वर्ग-2	--"
97	श्री बृजेश कुमार जाटव	उपयंत्री	जलसंसाधन विभाग	वर्ग-2	--"
98	श्री श्रवण कुमार	ग्रा.कृषि वि.अधि.	कृषि विभाग	वर्ग-2	--"
99	श्री अशुखदीन कुरेशी	उ.मा.शि.	शिक्षा विभाग	वर्ग-2	--"
100	श्री अमर सिंह	उ.मा.शि.	शिक्षा विभाग	वर्ग-2	--"
101	श्री अमित कुमार साहू	उ.मा.शि.	ज्ञान जातिय विभाग	वर्ग-2	--"
102	श्री अशोक कुमार	उ.मा.शि.	शिक्षा विभाग	वर्ग-2	--"
103	श्री कहेयालाल	उ.मा.शि.	ज्ञान जातिय विभाग	वर्ग-2	--"
104	श्री कपिल मीना	उ.मा.शि.	ज्ञान जातिय विभाग	वर्ग-2	--"
105	श्री गनेश प्रसाद अहिरवार	उ.मा.शि.	ज्ञान जातिय विभाग	वर्ग-2	--"
106	श्री मनोज कुमार मीना	उ.मा.शि.	ज्ञान जातिय विभाग	वर्ग-2	--"
107	श्री मुकेश यादव	उ.मा.शि.	ज्ञान जातिय विभाग	वर्ग-2	--"
108	श्री राघेश्याम शर्मा	उ.मा.शि.	ज्ञान जातिय विभाग	वर्ग-2	--"
109	श्री विद्याराम थाकड	उ.मा.शि.	ज्ञान जातिय विभाग	वर्ग-2	--"
110	श्री विनोद सिंह	उ.मा.शि.	ज्ञान जातिय विभाग	वर्ग-2	--"
111	श्री गणेश जाटव	उ.मा.शि.	शिक्षा विभाग	वर्ग-2	--"
112	श्री जोगेश बरेलिया	उ.मा.शि.	शिक्षा विभाग	वर्ग-2	--"
113	श्री दीनदयाल मीणा	उ.मा.शि.	शिक्षा विभाग	वर्ग-2	--"
114	श्री धर्मेन्द्र राठौर	उ.मा.शि.	जनजातिय विभाग	वर्ग-2	--"
115	श्री धर्मेन्द्र मीणा	उ.मा.शि.	शिक्षा विभाग	वर्ग-2	--"
116	श्री प्रदीप प्रजापति	उ.मा.शि.	शिक्षा विभाग	वर्ग-2	--"
117	श्री मोहर सिंह माली	उ.मा.शि.	शिक्षा विभाग	वर्ग-2	--"
118	श्री यतेन्द्र	उ.मा.शि.	शिक्षा विभाग	वर्ग-2	--"
119	संदीप डंडेलिया	उ.मा.शि.	शिक्षा विभाग	वर्ग-2	--"
120	श्री भारत सिंह कुशवाह	उ.मा.शि.	शिक्षा विभाग	वर्ग-2	--"
121	श्री भारत सिंह थाकड	उ.मा.शि.	शिक्षा विभाग	वर्ग-2	--"
122	श्री विजय कुमार	व्याख्याता	शिक्षा विभाग	वर्ग-2	--"

हस्ता./-

संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर, मध्यप्रदेश

क्र. 2847-निर्वा.-2024

सीहोर, दिनांक 29 अक्टूबर 2024

विधानसभा उप निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम:- सीहोर (म.प्र.)

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6
1	श्री के.के.पाण्डे	उप संचालक कृषि	कृषि विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
2	डॉ. देवेन्द्र सिंह भदौरिया	कार्यपालन यंत्री	लो.नि.वि.	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
3	श्री चन्द्रभान शर्मा	सहा.पशु चिकि. अधिकारी	पशु चिकित्सालय	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
4	श्री संदीप कुमार दुबे	सहा.पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सालय	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
5	श्री उत्कृष्ट भारद्वाज	पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सालय	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
6	श्री सुधीर कैथवाल	प्र. जिला पंजीयक	सहकारी समितियां	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
7	श्री प्रशांत बामनकर	जिला विपणन अधिकारी	जिला विपणन संस्था	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
8	श्री विजय श्रीवास्तव	सहा.प्र.म.प्र.स.वि.प्रा.	सड़क विकास प्राधिकरण	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
9	श्री दीपक चोकसे	कार्यपालन यंत्री	जल सं.वि.बुधनी	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
10	श्री नंदकिशोर यादव	उप यंत्री	जल संसाधन विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
11	श्री हिमांशु अडसुले	ए.व्ही.एफ.ओ.	पशु चिकित्सा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
12	श्री एस.सी. गोस्वामी	सहा.प्र.म.प्र.स.वि.प्रा.	सड़क विकास प्राधिकरण	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
13	श्री बलराम साहू	प्राचार्य हाई स्कूल	शिक्षा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
14	श्री राहुल बामनिया	अ.वि.अ.पी.एच.ई.	जल संसाधन विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
15	श्री अनिल पोलाया	बाल संरक्षण अधि.	म. बाल विकास विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
16	श्री मनीष अलावा	प्र.जिला. उद्योग केन्द्र	उद्योग विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
17	श्री आशीष कुमार पानकर	प्राचार्य बा.उ.मा.वि.	शिक्षा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
18	श्री रजनीश कुमार रंजन	व्याख्याता	उच्च शिक्षा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
19	श्री आर.के.शाक्य	सहा.सं.पशु पालन	डेयरी विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
20	श्री मयूरेश मालवीय	उप यंत्री	पी.एच.ई. विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
21	श्री विनोद प्रजापति	प.अ.श.वि.अभिकरण	शहरी विकास विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
22	श्री प्रफुल्ल खत्री	जि.का.अधिकारी	मत्र. बाल विकास विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
23	श्री सुनील भार्गव	प्राचार्य शा.क.उ.मा.वि.	शिक्षा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
24	श्री जितेन्द्र मंडलोई	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
25	श्री किरण मंगरे	ड्रग इस्पेक्टर	चिकित्सा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
26	श्री संतोष बांके	नापतोल निरीक्षक	नापतोल विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
27	श्री सनी अमरेलिया	उप यंत्री	कोलार नहर	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
28	श्री बी.डी बामने	अ.वि.अ.	कोलार नहर	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
29	श्री एम.के.गोयल	सहा.प्रबंधक	परियोजना कार्यालय	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
30	श्री अनिल कुमार जाट	अनुविभागीय अधिकारी	कृषि विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
31	श्री बी.एन. सिंह राणा	उप यंत्री	जलसंसाधन विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
32	श्री हर्षल कडडक	उप यंत्री	जल संसाधन विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
33	श्री प्रमोद कुमार गायकवार	व्याख्याता	तकनीकी शिक्षा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
34	श्री चन्द्र शेखकर वर्मा	सहा.जि.परि.समन्वयक	शिक्षा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये

35	श्री दीपक सक्सेना	स.प्र.म.प्र.ग्रा.स.वि.	ग्रामीण प्राधिकरण विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
36	डॉ. मनोज बलोदिया	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सालय	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
37	श्री राजकुमार सगर	सहायक संचालक	उद्धान विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
38	श्री राय थॉमस	उपयंत्री	कोलार परियोजना विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
39	श्री रवि मालवीय	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
40	श्री बहादुर सिंह मेवाडा	प्रमारी उएसडीओ	कृषि विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
41	श्री एन.आर. भारती	उप यंत्री	जल संसाधन विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
42	श्री शशि कुमार झा	उप यंत्री	आर.ई.एस.	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
43	श्री रविकांत प्रजापति	श्रम निरीक्षक	श्रम विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
44	श्री एस.के.जैन	सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
45	श्री प्रदीप सक्सेना	कार्यपालन यंत्री	लोक स्वा.यां विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
46	श्री कुलदीप शर्मा	परियोजना अधिकारी	म.बाल विकास विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
47	श्री रामनाथ धुर्वे	परियोजना अधिकारी	म.बाल विकास विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
48	श्री अन्वेष प्रताप सिंह	अनुविभागीय अधिकारी	पी.डब्ल्यू. डी. विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
49	श्री डॉ. दिनेश सिंह	आयुष अधिकारी	आयुर्वेद विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
50	श्री अनुराग कुमार	व्याख्याता	उच्च शिक्षा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
51	श्री जितेन्द्र वर्मा	पी.सी.ओ.	जनपद पंचायत बुधनी	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
52	श्री राहुल मिलाला	एव्हीएफओ	पशु चिकित्सा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
53	श्री नारायण सिंह चौहान	सहा.उप निरीक्षक	मण्डी बोर्ड	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
54	श्री लक्ष्मीनारायण महेश्वरी	सहा.उप निरीक्षक	मण्डी बोर्ड	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
55	श्री अभिषेक शर्मा	ए.व्ही.एफ.ओ.	पशु चिकित्सा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
56	श्री संतोष मांडी	पीसीओ	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
57	श्री माखन सिंह	ए.ई.ओ.	कृषि विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
58	श्री सतीश बरेठिया	उपयंत्री	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
59	जितेन्द्र सिंह दांगी	पीसीओ	ज०प० बुदनी	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
60	श्री जितेन्द्र कुमार पवार	एईओ	कृषि विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
61	श्री अजीत तिवारी	उप यंत्री	नगर परिषद	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
62	श्री कीरतमल खतरिया	एव्हीएफओ	पशु चिकित्सा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
63	श्री राजेन्द्र पाण्डे	सहा.रा.नि.	नगर पालिका	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
64	श्री बलराम कुशवाह	उपयंत्री	नगर पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
65	श्री भगवान सिंह कीर	पीसीओ	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
66	श्री हरिशंकर सूरमा	पीसीओ	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
67	श्री अभिषेक चतुर्वेदी	पीसीओ	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
68	श्री एम.के.कीर	एईओ	कृषि विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
69	श्री हरिओम कुमरे	उपयंत्री	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
70	श्री दिनेश रायकवार	पीसीओ	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
71	श्री पवन कुमार तिवारी	एईओ	कृषि विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
72	श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल	उपयंत्री	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
73	श्री कृष्णगोपाल उईके	आर.एईओ	कृषि विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
74	श्री निखिल रेकवार	आर.एईओ	कृषि विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
75	श्री ब्रजेश हरियाले	आर.एईओ	कृषि विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
76	श्री बी.एल.पंसोरिया	एडीओ	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
77	श्री गौरव गजमिये	सहा.उप. निरीक्षक	मण्डी बोर्ड	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
78	श्री नारायण सिंह राजपूत	सहा.उप निरीक्षक	मण्डी बोर्ड	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
79	श्री आर.के.मीना	कृ.वि.अधिकारी	कृषि विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
80	श्री सुधीर सिंह परिहार	उपयंत्री	पी.एच.ई.	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
81	श्री ओमप्रकाश पाटिल	सहा.उप निरीक्षक	मण्डी बोर्ड	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
82	श्री गोपाल खरते	सहा.उप निरीक्षक	मण्डी बोर्ड	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
83	श्री अशोक मिश्रा	पीसीओ	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
84	श्री अशोक कुमार पाठक	संभागीय लेखापाल	सीप परियोजना	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
85	श्री नरेन्द्र बहादुर	लेखापाल	शिक्षा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये

हस्ता./-

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी.